



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2992]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 20, 2016/अग्रहायण 29, 1938

No. 2992]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 20, 2016/AGRAHAYANA 29, 1938

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2016

**का.आ. 4098(अ).**—केंद्रीय सरकार, बीज अधिनियम, 1966 (1966 का 54) की धारा 8क की उप-धारा (2) के खंड (i), (ii), (iii) और (iv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से निम्नलिखित व्यक्तियों को केंद्रीय बीज प्रमाणन बोर्ड के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट करती है, अर्थात् :--

धारा 8क की उप-धारा (2) के खंड (i) के अधीन नामनिर्दिष्ट

1. सचिव (कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण),  
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय,  
कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग,  
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001। - अध्यक्ष

धारा 8क की उप-धारा (2) के खंड (ii) के अधीन नामनिर्दिष्ट

2. कृषि निदेशक,  
महाराष्ट्र सरकार, पुणे। - सदस्य
3. कृषि निदेशक,  
उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ। - सदस्य
4. कृषि निदेशक,  
असम सरकार, गुवाहाटी। - सदस्य

5. कृषि निदेशक, - सदस्य  
तेलंगाना सरकार, हैदराबाद ।

धारा 8क की उप-धारा (2) के खंड (iii) के अधीन नामनिर्दिष्ट

6. अनुसंधान निदेशक, - सदस्य  
राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय,  
समस्तीपुर, बिहार ।
7. अनुसंधान निदेशक, - सदस्य  
केरल कृषि विश्वविद्यालय,  
वैलानिककार, थ्रिसूर,  
केरल-680656 ।
8. अनुसंधान निदेशक, - सदस्य  
जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय,  
जबलपुर, मध्य प्रदेश ।

धारा 8क की उप-धारा (2) के खंड (iv) के अधीन नामनिर्दिष्ट

9. अनुसंधान निदेशक, - सदस्य  
कृषि विज्ञान संस्थान,  
बनारस हिंदु विश्वविद्यालय,  
वाराणसी ।
10. कृषि आयुक्त, - सदस्य  
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय,  
कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग,  
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 ।
11. उप-महानिदेशक (फसल विज्ञान), - सदस्य  
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद,  
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 ।
12. उप-महानिदेशक (बागवानी), - सदस्य  
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद,  
कृषि भवन, नई दिल्ली-110012 ।
13. संयुक्त सचिव (बीज), - सदस्य  
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय,  
कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग,  
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 ।
14. प्रधान, - सदस्य  
बीज विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रभाग,  
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद,  
पूसा, नई दिल्ली-110012 ।

15. प्रबंध निदेशक, - सदस्य  
राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड,  
जयपुर ।
16. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, - सदस्य  
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड,  
पूसा, नई दिल्ली-110012 ।
17. निदेशक, - सदस्य  
उत्तराखंड और तराई विकास निगम लिमिटेड,  
उधमसिंह नगर, हल्दी, उत्तराखंड ।
- धारा 8क के खंड (iv) के अधीन नामनिर्दिष्ट
18. श्री दान सिंह रावत, - सदस्य  
पुत्र स्व. श्री नारायण सिंह रावत,  
आशीर्वाद सदन, डब्ल्यू. एन. 05, खातिमा,  
उधमसिंह नगर, उत्तराखंड-262308.
19. श्री राजिंदर सिंह चिब, - सदस्य  
पुत्र स्व. श्री संधूर सिंह चिब,  
पता. वार्ड न. 3, एम/सी घऊ मनहासन, तहसील माई,  
जिला. जम्मू (जम्मू-कश्मीर) ।
20. इंजी. चौधरी रविंद्र सिंह "नादर", - सदस्य  
36, साकेत,  
मेरठ-250001, उत्तर प्रदेश ।
21. सुश्री बेबी चंकी, - सदस्य  
उपमहापौर, नगर निगम,  
मुंगेर, बिहार ।
22. उपायुक्त (क्वालिटी कंट्रोल), - सदस्य  
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय,  
कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग,  
बी-116, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 ।

[फा. सं. 2-17/2015-एसडी.IV]

राजेश कुमार सिंह, संयुक्त सचिव

**MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE****(Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th December, 2016

**S.O. 4098(E).**—In exercise of the powers conferred by clauses (i), (ii), (iii) and (iv) of sub-section (2) of Section 8A of the Seeds Act, 1966 (54 of 1966), the Central Government hereby nominates the following persons as Members of the Central Seed Certification Board, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely:-

Nominated under clause (i) of sub-section (2) of section 8A:

1. Secretary (Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare),  
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare,  
Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare,  
Krishi Bhawan, New Delhi-110001. - Chairman

Nominated under clause (ii) of sub-section (2) of section 8A:

2. Director of Agriculture,  
Government of Maharashtra,  
Pune. - Member
3. Director of Agriculture,  
Government of Uttar Pradesh,  
Lucknow. - Member
4. Director of Agriculture,  
Government of Assam,  
Guwahati. - Member
5. Director of Agriculture,  
Government of Telangana,  
Hyderabad. - Member

Nominated under clause (iii) of sub-section (2) of section 8A:

6. Director of Research,  
Rajendra Agricultural University,  
Samastipur, Bihar. - Member
7. Director of Research,  
Kerala Agricultural University,  
Vellanikkara, Thrissur,  
Kerala-680656. - Member
8. Director of Research,  
Jawaharlal Nehru Krishi Vishwa Vidyalaya,  
Jabalpur, Madhya Pradesh. - Member

Nominated under clause (iv) of sub-section (2) of section 8A:

9. Director of Research,  
Institute of Agricultural Science,  
Banaras Hindu University,  
Varanasi. - Member
10. Agriculture Commissioner,  
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare,  
Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare,  
Krishi Bhawan, New Delhi-110001. - Member

- |  |          |
|--|----------|
| 11. Deputy Director General (Crop Sciences),<br>Indian Council of Agricultural Research,<br>Krishi Bhawan, New Delhi-110001.   | - Member |
| 12. Deputy Director General (Horticulture),<br>Indian Council of Agricultural Research,<br>Krishi Anusandhan Bhawan-II,<br>Pusa Campus, New Delhi-110012.                        | - Member |
| 13. Joint Secretary (Seeds),<br>Ministry of Agriculture and Farmers Welfare,<br>Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare,<br>Krishi Bhawan, New Delhi-110001. | - Member |
| 14. Head,<br>Division of Seed Science and Technology,<br>Indian Agricultural Research Institute,<br>Pusa, New Delhi-110012.  | - Member |
| 15. Managing Director,<br>Rajasthan State Seed Corporation Limited,<br>Jaipur.   | - Member |
| 16. Chairman-cum-Managing Director,<br>National Seeds Corporation Limited,<br>Pusa, New Delhi-110012.  | - Member |
| 17. Managing Director,<br>Uttarakhand and Tarai Development Corporation Limited,<br>Udham Singh Nagar, Haldi, Uttarakhand.   | - Member |

Nominated under clause (iv) of section 8A:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 18. Shri Dan Singh Rawat,<br>S/o. Late Shri Narayan Singh Rawat,<br>Aashirwad Sadan, W.N. 05, Khatima,<br>U.S.Nagar, Uttarakhand-262308.   | - Member           |
| 19. Shri Rajinder Singh Chib,<br>S/o. Late Sandhur Singh Chib,<br>R/o. Ward No.3 M/C Ghou Manhasan Teh Marh,<br>Distt. Jammu, (Jammu and Kashmir).   | - Member           |
| 20. Engg. Chaudhary Ravinder Singh "Nadar",<br>36, Saket,<br>Meerut-250001, Uttar Pradesh.   | - Member           |
| 21. Ms. Baby Chanki<br>Deputy Mayor,<br>Municipal Corporation,<br>Munger, Bihar.   | - Member           |
| 22. Deputy Commissioner (Quality Control),<br>Ministry of Agriculture and Farmers Welfare,<br>Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare,<br>B-116, Shastri Bhawan, New Delhi-110001. | - Member Secretary |

[F. No. 2-17/2015-SD.IV]

RAJESH KUMAR SINGH, Jt. Secy.